

भारत का राजपत्र
The Gazette of India.

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 26, 1973/माघ 6, 1894

No. 17]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 26, 1973/MAGHA 6, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January 1973

No. 429/39/72-AVD-IV.—The President is pleased on the occasion of Republic Day, 1973, to award an Appreciation Certificate for Specially Distinguished Record of Service to Shri Cottar Syed Ahmed Shah, presently working as Chief Enforcement Officer, under the Madras Zonal Office of the Directorate of Enforcement.

2. The award is made under Clause (a) (ii) of para 1 of the Scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs & Central Excise Departments, published in Part I, Section 1, of the Gazette of India Extraordinary Notification No. 12/139/59-AD.IIB dated the 5th November, 1962, as amended from time to time.

U: C. AGARWAL, Jt. Secy.

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1973

सं० 429/39/72-ए० बी० डी०-4.—गणतन्त्र दिवस, 1973 के अवसर पर राष्ट्रपति, श्री कोटार सैयद अहमद शाह को जो इस समय प्रवर्तन निदेशालय के मद्रास-क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्य प्रवर्तन अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं, उनके विशेष रूप से सराहनीय सेवा-रिकार्ड के लिए एक सराहना-प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं।

2. यह पुरस्कार सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान करने की उस योजना के पैरा 1, खण्ड (क) (ii) के अधीन दिया जाता है जो भारत सरकार की समय-समय पर यथा संशोधित असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 की अधिसूचना संख्या 12/139/59-प्रशासन-IIIख, दिनांक 5 नवम्बर, 1962 में प्रकाशित हुई थी।

उदय चंद अग्रवाल, संयुक्त सचिव।